

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन, जूनो अवॉर्ड-विजेता मुख्य प्रदर्शक वॉक ऑफ द अर्थ के साथ कैनेडा का जश्न ऑनलाइन मना रहा है

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (23 जून, 2020) – कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपना कैनेडा डे (Canada Day) का जश्न ऑनलाइन मना रही है! सिटी को यह घोषित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जूनो (JUNO) अवॉर्ड-विजेता बैंड, वॉक ऑफ द अर्थ (Walk Off The Earth) इस साल का मुख्य प्रदर्शक है।

यह कार्यक्रम, बुधवार, 1 जुलाई को दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक, www.brampton.ca/canadaday पर होगा। इस कार्यक्रम में पूरा दिन, ऑनलाइन परिवार-अनुकूलित गतिविधियां, कैनेडा की असली व्यंजन विधियां (रेसिपीज), भोजन खरीदकर ले जाने और भोजन की डिलीवरी करने के विकल्प पेश करने वाले रेस्टोरेंट्स की सूची और अन्य बहुत कुछ उपलब्ध होगा।

इस साल, हर किसी को अपने घर बैठे ही, ब्रैम्पटन की कैनेडा डे की स्टेज की पहली पंक्ति की सीट मिलेगी। अलेक्ट्रा (Alectra) द्वारा पेश की जाने वाली डिजिटल स्टेज का सीधा प्रसारण, शाम को 5:30 बजे शुरू होगा। इसमें लोकल कलाकारों और जूनो अवॉर्ड-विजेता मुख्य प्रदर्शक, वॉक ऑफ द अर्थ (Walk Off The Earth) के प्रदर्शन पेश किए जाएंगे।

रात को 8 बजे, सीधा प्रसारण, ओटावा (Ottawa) से पूरे देश में, सी.बी.सी. (CBC) के ऑनलाइन कैनेडा डे के प्रसारण में बदल जाएगा, जहां ब्रैम्पटन के कलाकार हावीया माईटी (Haviah Mighty), कैनेडा के प्रदर्शन करने वाले कई कलाकारों में से एक होंगे।

जश्न को अंत तक देखने के लिए, दर्शक तीव्र आवाज़ में पटाखों का रोमांचक डिस्प्ले देख सकते हैं! टिम होर्टन्स (Tim Hortons) द्वारा पेश किया जाने वाला, पटाखों का डिजिटल डिस्प्ले, निवासियों को कोविड-19 महामारी के दौरान, पारंपरिक कैनेडा के पटाखों के डिस्प्ले का बेजोड़ और सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है। आभासी (वर्चुअल) शो रात को 10 बजे ऑनलाइन शुरू होगा, जो स्नैपड कम्युनिटी हब (Snapd Community Hub) द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

ब्रैम्पटन कैनेडा डे, उदारतापूर्वक, अलेक्ट्रा, टिम होर्टन्स, ऑलस्टेट (Allstate), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) और बेल (Bell) द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है।

सोशल बनें!

- हमें सोशल मीडिया @ExperienceBrampton और @CityBrampton पर फॉलो करें।
- #BramptonCanadaDayatHome और #BramptonTogether का प्रयोग करते हुए, घर में अपने कैनेडा डे के जश्न की तस्वीरें और वीडियो साझा करें।

- क्या आप किसी लोकल रेस्टोरेंट के भोजन का आनंद ले रहे हैं? तो तस्वीरें साझी करने के लिए #SupportLocalBrampton का प्रयोग करें।

हवाले

“इस साल हर किसी को स्वस्थ और कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए, ब्रैम्पटन के कैनेडा डे के जश्न थोड़े अलग हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि 1 जुलाई को www.brampton.ca/canadaday पर जाकर, परिवार-अनुकूलित गतिविधियों का आनंद लें, कैनेडियन भोजन पकाएं या किसी लोकल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें और ब्रैम्पटन के कलाकारों और जूनो अवॉर्ड-विजेता मुख्य प्रदर्शक, वॉक ऑफ द अर्थ के प्रदर्शनों के साथ हमारे देश का जश्न मनाएं – मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार और मैं पूरा दिन इन गतिविधियों का आनंद ले रहे होंगे!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस साल, ब्रैम्पटन में कैनेडा डे अधिक निजी होगा और इसी में ही हम सभी की भलाई है। आनंद लें और सुरक्षित रहें – आप ब्रैम्पटन के कई स्वादिष्ट भोजन पेश करने वाले रेस्टोरेंट्स में से किसी एक से भोजन खरीदकर, लोकर कारोबार को सहयोग करें, हमारे द्वारा पेश किए जाने वाले प्रदर्शनों पर डांस पार्टी का मज़ा लें और पटाखों का बेजोड़ ऑनलाइन डिस्प्ले देखें!”

- गुरप्रीत धिल्लों (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर

“हम इस वर्ष, कोविड-19 के कारण, सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कैनेडा डे का जश्न, ऑनलाइन मना रहे हैं। चाहे शारीरिक तौर पर हम दूर हैं, लेकिन तब भी हम जुड़े रह सकते हैं! #BramptonCanadaDayatHome और #BramptonTogether का प्रयोग करते हुए, सोशल मीडिया पर, घर में अपने कैनेडा डे के जश्न की तस्वीरें और वीडियो साझा करें और यदि आप किसी लोकल रेस्टोरेंट के भोजन का आनंद ले रहे हैं तो तस्वीरें साझी करने के लिए #SupportLocalBrampton का प्रयोग करें।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर

“हमारे द्वारा सिटी को दुबारा खोलने पर काम करते समय, समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। कैनेडा डे, ब्रैम्पटन के सबसे बड़े जश्नों में से एक है। मेरा हर किसी से अनुरोध है कि इस साल घर में रहकर, सुरक्षित तरीके से जश्न मनाएं। हम आपको कोविड-19 से सुरक्षा के लिए ब्रैम्पटन हेतु उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में सूचित करते रहेंगे।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, दुबारा खोलने और बहाली की ओर बढ़ रही है, हमारे स्टाफ ने, सभी के लिए कैनेडा डे का आनंद लेने के लिए, ऑनलाइन देखने के लिए कई तरह की शानदार गतिविधियां और प्रदर्शन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। सुरक्षित रहें और इस साल अपने घर में ही कैनेडा डे जश्न मनाएं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca